

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी 2024— माघ 20, शक 1945

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-02/2019/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित बाल देखरेख संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 65 (2) एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 25 के अनुसार अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में बालकों के स्थापन के लिये विशिष्ट दत्तक अभिकरण के रूप मान्यता का नवीनीकरण करता है—

क्रं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का पता	जिले का नाम	स्वीकृत क्षमता
1	सेवा भारती रायपुर	स्व. विमला देवी स्मृति निलयम, पुराने स्टेडियम के पीछे कोटा, रायपुर	रायपुर	20
2	बिलासपुर सेवा भारती	माँ तुलजा भवानी मंदिर के पास, होम गार्ड कैम्प के सामने कुदुदण्ड बिलासपुर	बिलासपुर	10
3	बिलासपुर सेवा भारती	मातृछाया, शिशु गृह, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास, नवापारा, अंबिकापुर	सरगुजा	10
4	बिलासपुर सेवा भारती	मातृछाया, शिशु गृह, शांति नगर वार्ड, गुरुद्वारा रोड, जगदलपुर	बस्तर	10
5	बिलासपुर सेवा भारती	नवजीवन स्कूल के सामने, धनोरा रोड, बोरसी, दुर्ग	दुर्ग	10
6	सार्वजनिक विकास वाहिनी	संगम चौक, तिवारी कालोनी, दरबारी टोला, जशपुर	जशपुर	10
7	बस्तर सामाजिक जन विकास समिति	जीएडी कालोनी, आयशा होम्स, आंवराभाटा, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	10

यह मान्यता निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है –

1. यह मान्यता प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए अथवा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 के तहत पंजीकरण समाप्ति तक, जो भी पहले हो वैध होगी। निर्धारित समयावधि पश्चात् संस्था द्वारा बच्चों के दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 25 के प्रावधानानुसार नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
2. दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 46 के प्रावधान अनुसार समय सीमा का पालन करना होगा।
3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 65 (4) तथा दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 26 के प्रकाश में संस्था की मान्यता निलंबित अथवा प्रतिसंहरण की जा सकेगी।
4. संस्था को निर्धारित मापदण्ड अनुसार बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
5. मान्यता प्रदान की जाने वाली विशिष्ट दत्तक अभिकरणों द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था के कर्मचारियों व पदाधिकारियों को बैठक व प्रशिक्षण हेतु नामांकित किये जाने की दशा में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
7. संस्था दत्तक ग्रहण हेतु दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 49 के प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क लेने का अधिकार होगा। प्रत्येक शुल्क/दान का विवरण राज्य बाल संरक्षण समिति को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। प्राप्त शुल्क/दान का उपयोग बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण पर किया जाना होगा।
8. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगी।
9. संस्था को निर्दिष्ट स्थानों में "क्रेडल बेबी रिसेशन सेंटर" की स्थापना करनी होगी।
10. संस्था को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा बनाए गए "केयरिंग्स वेबसाइट" पर पंजीयन कराते हुए सभी सुसंगत विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा।
11. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेख व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।
12. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

हस्ता./—

(शम्मी आबिदी)
सचिव.